



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 53] नई दिल्ली, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2005, शनिवार/पौष 4—पौष 10, 1927
No. 53] NEW DELHI, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2005, SATURDAY/PAUSA 4—PAUSA 10, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2005

(एनसीओएफ), गाजियाबाद तथा जैव कृषि प्रादेशिक केन्द्रों से संबंधित अन्य लिखते”।

[फा. सं. 17(1)/2003-न्यायि.]

सा. का. नि. 427.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देते हैं कि भारत सरकार के तत्कालीन विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 585, तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के भाग 7 में “खाद्य, कृषि, समुदाय विकास और सहकारिता मंत्रालय की दशा में” से संबंधित शीर्षक के उपशीर्षक “क. कृषि विभाग की दशा में” के नीचे पैरा 22 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“23. कृषि और सहकारिता विभाग में समन्वित पोषण से संबंधित भारत सरकार के उप सचिव या भारत सरकार के अवर सचिव द्वारा भूमि के अंतरण के लिए अथवा कार्यालय के लिए भवन किराये पर लेने के लिए की गई संविदाएं और पट्टाभिलेख और राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र

डी.आर. मीणा, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना राजपत्र में सं. सा.का.नि. 585, तारीख 1 फरवरी, 1966 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित संख्याओं द्वारा किये गये :—

1. सा.का.नि. 1058(अ), तारीख 10 जुलाई, 1986
2. सा.का.नि. 168, तारीख 5 मार्च, 1990;
3. सा.का.नि. 541, तारीख 19 जुलाई, 1990;
4. सा.का.नि. 542, तारीख 19 जुलाई, 1990;
5. सा.का.नि. 711, तारीख 14 नवम्बर, 1990;
6. सा.का.नि. 713, तारीख 15 नवम्बर, 1990
7. सा.का.नि. 570, तारीख 27 अगस्त, 1991;

8. सा.का.नि. 333, तारीख 9 जुलाई, 1992;
9. सा.का.नि. 497, तारीख 16 अक्टूबर, 1992;
10. सा.का.नि. 540, तारीख 14 अक्टूबर, 1993;
11. सा.का.नि. 601, तारीख 16 नवंबर, 1993;
12. सा.का.नि. 2052, तारीख 31 अगस्त, 1994;
13. सा.का.नि. 620, तारीख 25 नवंबर, 1994;
14. सा.का.नि. 36, तारीख 6 जनवरी, 1995;
15. सा.का.नि. 456, तारीख 27 सितम्बर, 1996;
16. सा.का.नि. 313, तारीख 5 अगस्त, 1997;
17. सा.का.नि. 285, तारीख 28 जून, 1995;
18. सा.का.नि. 230, तारीख 15 जुलाई, 1999;
19. सा.का.नि. 240, तारीख 19 जुलाई, 1999;
20. सा.का.नि. 406, तारीख 1 नवम्बर, 1999;
21. सा.का.नि. 394, तारीख 18 नवम्बर, 1999;
22. सा.का.नि. 108, तारीख 21 फरवरी, 2000;
23. सा.का.नि. 80, तारीख 25 फरवरी, 2000;
24. सा.का.नि. 460, तारीख 13 नवम्बर, 2000;
25. सा.का.नि. 166, तारीख 26 फरवरी, 2000;
26. सा.का.नि. 31, तारीख 7 जनवरी, 2002;
27. सा.का.नि. 454, तारीख 29 अक्टूबर, 2002;
28. सा.का.नि. 487, तारीख 18 नवम्बर, 2002;
29. सा.का.नि. 35, तारीख 9 जनवरी, 2003;
30. सा.का.नि. 66, तारीख 31 जनवरी, 2003;
31. सा.का.नि. 139, तारीख 26 मार्च, 2003;
32. सा.का.नि. 184, तारीख 22 अप्रैल, 2003;
33. सा.का.नि. 14, तारीख 30 दिसम्बर, 2003;
34. सा.का.नि. 15, तारीख 31 दिसम्बर, 2003;
35. सा.का.नि. 214, तारीख 21 जून, 2004;
36. सा.का.नि. 71, तारीख 10 नवम्बर, 2004;
37. सा.का.नि. 217, तारीख 22 जून, 2005; और
38. सा.का.नि. 320, तारीख 14 सितम्बर, 2005।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 23rd December, 2005

G.S.R. 427— In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the constitution, the President

hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the then Ministry of Law (Department of Legal Affairs), number G.S.R. 585, dated the 1st February, 1966, namely:—

In the said notification, in part VII, relating to the heading "IN THE CASE OF MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION", under the Sub-heading "A. In the case of Department of Agriculture" after paragraph 22, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"23. Contracts or Lease Deeds for transferring land or hiring of building for office and other instruments relating to National Centre of Organic Farming (NCOF), Ghaziabad and its Regional Centres of Organic Farming; by the Deputy Secretary to the Government of India or the Under Secretary to the Government of India in the Department of Agriculture and Cooperation concerned with Integrated Nutrient Management",

[F.No.17(1)/2003-Judl.]

D. R. MEENA, Jt. Secy. and Legal Adviser

Foot note.— The principal notification was published in the official Gazette *vide* number G.S.R. 585, dated the 1st February, 1966 and subsequently amended *vide* numbers:—

1. G.S.R. 1058(E), dated the 10th July, 1986;
2. G.S.R. 168, dated the 5th March, 1990;
3. G.S.R. 541, dated the 19th July, 1990;
4. G.S.R. 542, dated the 19th July, 1990;
5. G.S.R. 711, dated the 14th November, 1990;
6. G.S.R. 713, dated the 15th November, 1990;
7. G.S.R. 570, dated the 27th August, 1991;
8. G.S.R. 333, dated the 9th July, 1992;
9. G.S.R. 497, dated the 16th October, 1992;
10. G.S.R. 540, dated the 14th October, 1993;
11. G.S.R. 601, dated the 16th November, 1993;
12. G.S.R. 2052, dated the 31 August, 1994;
13. G.S.R. 620, dated the 25th November, 1994;
14. G.S.R. 36, dated the 6th January, 1995;
15. G.S.R. 456, dated the 27th September, 1996;
16. G.S.R. 313, dated the 5th August, 1997;
17. G.S.R. 285, dated the 28th June, 1995;
18. G.S.R. 230, dated the 15th July, 1999;
19. G.S.R. 240, dated the 19th July, 1999;
20. G.S.R. 406, dated the 1st November, 1999;

21. G.S.R. 394, dated the 18th November, 1999;
22. G.S.R. 108, dated the 21st February, 2000;
23. G.S.R. 80, dated the 25th February, 2000;
24. G.S.R. 460, dated the 13th November, 2000;
25. G.S.R. 166, dated the 26th February, 2001;
26. G.S.R. 31, dated the 7th January, 2002;
27. G.S.R. 454, dated the 29th October, 2002;
28. G.S.R. 487, dated the 18th November, 2002;
29. G.S.R. 35, dated the 9th January, 2003;
30. G.S.R. 66, dated the 31st January, 2003;
31. G.S.R. 139, dated the 26th March, 2003;
32. G.S.R. 184, dated the 22nd April, 2003;
33. G.S.R. 14, dated the 30th December, 2003;
34. G.S.R. 15, dated the 31st December, 2003;
35. G.S.R. 214, dated the 21st June, 2004;
36. G.S.R. 71, dated the 10th November, 2004;
37. G.S.R. 217, dated the 22nd June, 2005; and
38. G.S.R. 320, dated the 14th September, 2005.

कंपनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2005

सा. का. नि. 428.—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्रालय (कंपनी विधि प्रशासन अनुभाग) की अधिसूचना सं. का.नि.आ. 3216 तारीख 4-10-1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) का आंशिक रूप से उपांतरण करते हुए, यह निदेश देती है कि मैसर्स आगा खां फाउंडेशन, सरोजनी हाऊस, दूसरा तल, 6 भगवान दास रोड, नई दिल्ली (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कंपनी है, उक्त अधिसूचना द्वारा किसी विदेशी कंपनी को उनके आवेदनों में यथाउपांतरित उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाएं निम्नलिखित और अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगी, अर्थात्:—

यह, धारा 594 की उप-धारा (1) के खंड (क) के उपबंधों का पर्याप्त अनुपालन समझा जाएगा, यदि 1 जनवरी, 2004 को आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त होने वाली और 1 जनवरी, 2005 को आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के संबंध में कंपनी, भारत में कंपनियों के समुचित रजिस्ट्रार को अपने कारबार लेखा के संबंध में तीन प्रतियों में,—

(i) निम्नलिखित द्वारा ऐसी कंपनी की भारतीय शाखा द्वारा उसके साथ प्राप्तियों और संदायों का एक विवरण,—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका की तामील को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति;

(ख) भारत में व्यवसायरत कोई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट;

यह, प्रमाणित करते हुए कि 1 जनवरी, 2004 को आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त होने वाली और 1 जनवरी, 2005 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारत में कंपनी की प्राप्तियों और संदायों का सही और ऋजु चित्र देते हुए, उक्त विवरण देता है;

(ii) निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित भारत में कंपनी के आस्तियों और दायित्वों का विवरण,—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 592 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका की तामील को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति; और

(ख) भारत में व्यवसायरत कोई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट;

यह, प्रमाणित करते हुए कि 1 जनवरी, 2004 को आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त होने वाली और 1 जनवरी, 2005 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भारत में कंपनी की प्राप्तियों और संदायों का सही और ऋजु चित्र देते हुए, उक्त विवरण देता है;

(iii) उक्त अधिनियम की धारा 592 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन भारत में आदेशिका की तामील स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करते हुए कि कंपनी ने 1 जनवरी, 2004 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2004 को समाप्त होने वाली और 1 जनवरी, 2005 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान भारत में कोई व्यापार या विनिर्माण, वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं किया है।

[फा. सं. 50/1/2005-सीएल-III]

ए. के. शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi, the 23rd December, 2005

G.S.R. 428.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 594 of the companies Act, 1956 (1 of 1956) and in partial modification of the notification of the Government of India, erstwhile Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) Number S.R.O. 3216 dated the 4th October, 1957 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby directs that in the case of M/s. Aga Khan Foundation, Sarojini House, 2nd floor, 6 Bhagawan Das Road, New Delhi (hereinafter referred to as the company) being a foreign company, the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said Section 594 as modified in their application to a foreign company by the said notification shall apply subject to the following further exceptions and modifications, namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the Section 594, if, in respect of the period commencing from the 1st day of January, 2004 and ending on the 31st day of December, 2004 and from the 1st day of January, 2005 and ending on the 31st day of December 2005, the company in respect of its Indian Business Accounts submits to the appropriate Registrar of Companies in India, in triplicate:—

(i) a statement of receipts and payments made by the Indian branches of such company certified by—

(a) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the said Act; and

(b) a Chartered Accountant practising in India,

certifying that the said statement gives a true and fair view of the receipts and payments of the company in India for the period commencing from the 1st day of January, 2004 and ending on the 31st day of December, 2004 and from the 1st day of January, 2005 and ending on the 31st day of December, 2005;

(ii) a statement of the company's assets and liabilities in India certified by—

(a) a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the said Act; and

(b) a Chartered Accountant practising in India,

certifying that the said statement gives a true and fair view of the state of affairs of the company in India as at the end of the period commencing from the 1st day of January, 2004 and ending on the 31st day of December, 2004 and from the 1st day of January, 2005 and ending on the 31st day of December, 2005;

(iii) a certificate duly signed by a person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of Section 592 of the Act certifying that the company did not carry out any trading or manufacturing, commercial or industrial activity in India during the period commencing from the 1st day of January 2004 and ending on the 31st day of December, 2004 and from the 1st day of January, 2005 and ending on the 31st day of December, 2005.

[F.No. 50/1/2005-CL.III]

A. K. SHARMA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 429.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग में ड्राईवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फिल्म प्रभाग, ड्राईवर (विशेष श्रेणी) भर्ती नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरहता :** वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डोलगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	---------------------	--

1	2	3	4	5	6
1. ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	1* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	5000-150- 8000 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशितता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
11	12

100% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति द्वारा : फिल्म प्रभाग ड्राईवर श्रेणी 1 में से जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।
-----------------------	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता।
--	-----------------

- | | |
|--|----------|
| 1. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, फिल्म प्रभाग | —अध्यक्ष |
| 2. सहायक स्टेशन निदेशक, आकाशवाणी | —सदस्य |
| 3. उत्पादन प्रबंधक, फिल्म प्रभाग | —सदस्य |
| 4. उप निदेशक, फिल्म प्रभाग | —सदस्य |

3629 45/05-2

[फा. सं. ए-12018/2/2004-एफ (ए)]
विश्वजीत सहाय, निदेशक (फिल्म)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd December, 2005

G.S.R. 429.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of Recruitment to the post of Driver (Special Grade) in Films Division, under the Ministry of Information & Broadcasting :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Films Division, Driver (Special Grade) Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualification etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matter connected therewith shall be as specified in the columns (5) to (14) of the schedule aforesaid.

4. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by orders for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection
1	2	3	4	5
1. Driver (Special Grade)	1*(2005) *(Subject to variation dependent on work load.)	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000.	Non-Selection
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion, deputation or transfer to be made.
--	--

11

12

100% by Promotion

Promotion :

From amongst Driver Grade I in the Films Division with three years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of :

Not applicable.

1. Senior Administrative Officer, Films Division —Chairman
2. Assistant Station Director, All India Radio —Member
3. Production Manager, Films Division —Member
4. Deputy Director, Films Division —Member

[F. No. A-12018/2/2004-F(A)]

VISHVAJIT SAHAY, Director (Films)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 430.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1981 जहां तक उसका संबंध फोरमैन के पद से है को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है जवाहर लाल स्नातकोत्तर, चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में फोरमैन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी फोरमैन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
फोरमैन	01* (एक) (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	4500-125- 7000 रुपए	लागू नहीं होता	नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा				
11	12				
प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति।	<p>प्रतिनियुक्ति. — केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी—</p> <p>(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या</p> <p>(ii) जिन्होंने 4000-6000 रुपए या समतुल्य वेतनमान के पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है—</p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 10+2 या समतुल्य;</p> <p>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से विद्युत या यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा किसी सरकारी स्थापन के विद्युत या यांत्रिक कर्मशाला में एक वर्ष का अनुभव ; या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मशीन मिस्त्री या मैकेनिक में आईटीआई व्यवसाय प्रमाणपत्र या समतुल्य तथा किसी सरकारी स्थापन के विद्युत या यांत्रिक कर्मशाला में तीन वर्ष का अनुभव।</p>				

II. 4000-6000 रुपए के वेतनमान में ऐसे विभागीय ज्येष्ठ प्रशिक्षण मैकेनिक जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, के संबंध में भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :

लागू नहीं होता।

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष | —अध्यक्ष |
| 2. विभागाध्यक्ष (संबंधित) | —सदस्य |
| 3. कार्यालय प्रमुख | —सदस्य |
| 4. उपनिदेशक प्रशासन | —सदस्य |

[फा. सं. ए-11018/23/1995-आरआर/एम. ई. IV /एम. ई. III]

महावीर प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 259, तारीख 7-3-1981 द्वारा और संशोधन नियम सा.का.नि. 60, तारीख 30-1-1993 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 15th December, 2005

G.S.R. 430.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education, Pondicherry, (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1981, in so far as it relates to the post of Foreman, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Foreman in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely :—

1. **Short title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, Foreman (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2005.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Post, Classification and Scale of Pay.**—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age limit, Qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification(s) and other matter relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

3629 4F/05-3

4. Disqualification.—No person,—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	
1	2	3	4	5	
Foreman	1*One (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4500-125-7000.	Not applicable	
Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pensions) Rules, 1972		Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifica-tions prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6		7	8	9	10
No		Not applicable	Not applicable	Not applicable	Nil
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made.			
11		12			
Deputation/Promotion		I. Deputation: From amongst the officers of the Central or State Government: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in post in the pay scale of Rs. 4000-6000; and (b) Possessing the qualifications and experience as under :— (i) 10+2 or equivalent from a recognized University or Board.			

(ii) Diploma in Electrical or Mechanical Engineering equivalent from a recognized Institution with one year experience in an Electrical or Mechanical workshop of a Government establishment; or

ITI trade certificate in Machinist or Mechanic or equivalent from a recognised Institution with three year experience in an Electrical or Mechanical workshop of a Government establishment.

II. The Departmental Senior Refreigeration Mechanic in the Pay scale of Rs. 4000-6000 with five years' regular service in the grade shall also be considered along with outsiders. In case he or she is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion.

The Deptmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for condiseration for appointment by promotion.

(The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—

Not applicable.

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Medical Superintendent/Dean | —Chairman |
| 2. Head of the Department (concerned) | —Member |
| 3. Head of Office | —Member |
| 4. Deputy Director Administration | —Member |

[F. No. A-11018/23/1995-RR/ME-IV/ME-III]

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette vide G.S.R. No. 259 dated 7-3-1981 and the amendment rules vide GSR No. 60 dated 30-01-1993.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2005

सा. का. नि. 431.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, पांडिचेरी (श्रेणी 3 ओर श्रेणी 4) भर्ती नियम, 1959 जहां तक उनका संबंध फोटोग्राफर के पद से है और जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियम, 1975 को जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ फोटोग्राफर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पॉडिचेरी, फोटोग्राफर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान, वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता : कोई व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
1. फोटोग्राफर	2* (दो) (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	4000-100- 6000 रुपए	लागू नहीं होता	25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	---	------------------------------

7	8	9	10
नहीं	आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से फोटोचित्रण में डिप्लोमा; (iii) किसी मान्यताप्राप्त संगठन से फोटो-चित्रण में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	---

11	12
प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति या आमेलन : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने 3200—4900 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; (iii) जिन्होंने 3050—4590 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ 8 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, (पुष्टि के संबंध में)

लागू नहीं होता।

जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

- | | |
|---|----------|
| 1. चिकित्सा अधीक्षक/संकायाध्यक्ष | —अध्यक्ष |
| 2. कार्यालय अध्यक्ष | —सदस्य |
| 3. विभागाध्यक्ष (चिकित्सा निदर्शन प्रभाग) | —सदस्य |
| 4. उप निदेशक (प्रशासन) | —सदस्य |

[फ़. सं. ए-12018/2/1998/आरआर/एमई-IV/एमई-III]

महावीर प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पण - फोटोग्राफर के पद के मूल नियम भारत के राजपत्र में 2-5-1959 (सा.का.नि. सं० 530) और कनिष्ठ फोटोग्राफर के पद के लिए 10-5-1975 (सा.का.नि. सं० 584) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 15th December, 2005

G.S.R. 431.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Medical College, Pondicherry (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1959 in so far as it relates to the post of Photographer and the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Class III posts) Recruitment Rules, 1975 in so far as it relates to the post of Junior Photographer, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely:—

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, Photographer (Group 'C' post), Recruitment Rules, 2005.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Post, Classification and Scale of Pay.—The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, Age limit, Qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualification(s) and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
Photographer	2 (Two)* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 4000-100-6000.	Non-applicable.

Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pensions) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
<p>25 years. (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions and orders issued by the Central Government).</p> <p>Note.1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Mizoram, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note.2: The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	No	<p>Essential:</p> <p>(i) Matriculation or equivalent qualification from a recognized Board.</p> <p>(ii) Diploma in Photography from a recognized University or Institution.</p> <p>(iii) One year experience in Photography from a recognized organization.</p> <p>Note 2 : Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates belonging to the Scheduled Casts/ Scheduled Tribes if, at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	Not applicable	Two years for direct recruits.
11	12			
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made.			
By Deputation or Absorption failing which by Direct Recruitment.	<p>Deputation or Absorption from amongst the officers of the Central or State Government;</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts in the pay scale of Rs. 3200-4900; or</p> <p>(iii) with eight years regular service in posts in the pay scale of Rs. 3050-4590; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.</p>			

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—

Not applicable.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Medical Superintendent/Dean | —Chairman |
| 2. Head of Office | —Member |
| 3. Head of the Department (Medical Illustration Division) | —Member |
| 4. Deputy Director (Administration) | —Member |

[F. No. A-12018/2/1998-RR/ME-IV/ME-III]

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

Note:—The principal rules of the post of Photographer was published in the Gazette of India on 2-5-1959 (GSR No. 530) and that of the post of Junior Photographer was published on 10-5-1975 (GSR No. 584).

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 432.—भारत के राजपत्र दिनांक 08-10-2005 भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 8 अक्टूबर, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 सा.का.नि. 357 के संदर्भ में :—

- (1) अधिसूचना के स्तंभ 12 में आ.क. (II) में वेतनमान 5500-8000/- को 5000-8000/- पढ़ें।
- (2) अधिसूचना के अंत में पदनाम "अवर सचिव" को "उप-सचिव" पढ़ें।

[सं. ए. 12018/2/2004-प्रशा० 1 (बी)]

सुमन के. अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Science and Technology)

CORRIGENDA

New Delhi, the 23rd December, 2005

G.S.R. 432.—In the notification dated 3-10-2005 of the Government of India, Ministry of Science and Technology, Department of Science and Technology published in the Gazette of India dated 8th October, 2005, in Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 357:—

- (1) In the schedule in column 12 in line 7 for the word "year's" read 'year's, in line 12 the word "regular" be deleted and in line 16 on column 12 substitute "and" with "or".

[No.A. 12018/2/2004-Admn.I(B)]

SUMAN K. AGRAWAL, Under Secy.